



क्या आपको NDIS तक पहुँच प्राप्त करने और इसे समझने में सहायता की ज़रूरत है?

SSI लोकल एरिया कोर्डिनेशन (स्थानीय क्षेत्र समन्वयन)



Need help accessing and understanding the NDIS?

SSI Local Area Coordination

Delivering the NDIS in your community

Hindi

हम यहाँ आपके लिए हैं

NSW में लोकल एरिया कोर्डिनेशन प्रदान करने के लिए सेटलमेंट सर्विसिज़ इंटरनेशनल (SSI) ने National Disability Insurance Agency (नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस एजेंसी [राष्ट्रीय विकलांगता बीमा संस्था], NDIA) के साथ सहभागिता की है।

लोकल एरिया कोर्डिनेटर (स्थानीय क्षेत्र समन्वयक) (LAC) के तौर पर, SSI 7 से 64 साल के लोगों को National Disability Insurance Scheme (NDIS) तथा साथ ही समुदाय में अन्य सेवाओं व समर्थनों तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता देती है।

हम किन क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं:

SSI सिडनी और दक्षिण-पश्चिम सिडनी में रहने वाले निवासियों को लोकल एरिया कोर्डिनेशन सेवाएँ प्रदान करती है, इन क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानीय सरकारी क्षेत्र भी शामिल हैं:

सिडनी

- Ashfield
- Canada Bay
- Leichhardt
- Marrickville
- Strathfield
- Sydney

दक्षिण पश्चिम सिडनी

- Bankstown
- Camden
- Campbelltown
- Canterbury
- Fairfield
- Liverpool
- Wingecarribee
- Wollondilly

हम क्या करते हैं



यह पता लगाने के लिए कक्या आप NDIS सहायता के लिए पात्र हैं, कृपया www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible देखें

चाहे आप NDIS सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं, SSI के LAC निम्नलिखित काम करने में आपकी मदद करेंगे:



विश्वास के साथ NDIS को समझने, इसतक पहुँच प्राप्त करने और इसे नेविगेट करने में



आपके समुदाय में स्थानीय समर्थन सेवाओं के साथ जुड़ने में



यह समझने में कि NDIS शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन सहित अन्य सरकारी सेवाओं के साथ कैसे काम करती है



आपके स्थानीय समुदाय से आपके लिए आवश्यक समर्थन का पता लगाने में

हमें संपर्क करें

क्या आपका कोई सवाल है या आप हमें फीडबैक प्रदान करना चाहते/चाहती हैं? हमारी इनटेक (पात्रता की जाँच और निर्धारण) टीम आपको यहाँ सहायता देने के लिए है

सभी नए और वर्तमान सहभागियों के लिए SSI LAC की इनटेक टीम हमारा सर्वप्रथम संपर्क केन्द्र है। हमारे सुशिक्षित इनटेक ऑफिसर सभी सहभागियों के सभी सवालों का कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से जवाब देकर, NDIS से जुड़े अपने ज्ञान को साझा करके और फोन करने वाले लोगों को जानकारी और समर्थन देकर उनकी सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। टीम हमारी सेवा के बारे में किसी प्रकार की फीडबैक के साथ सहायता करने के लिए भी उपलब्ध है।

आप निम्नलिखित किसी माध्यम से हमारे किसी इनटेक ऑफिसर से बात कर सकते/सकती हैं:



1800 960 975 पर फोन करके

सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच

या



सामान्य पूछताछ के लिए lac@ssi.org.au पर ई-मेल करके

हमारी सेवा के बारे में फीडबैक जमा करने के लिए

lacfeedback@ssi.org.au पर ई-मेल करें

SSI की लोकल एरिया कोर्डिनेशनल सेवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया यह वेबसाइट देखें

www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

SSI के बारे में

SSI एक सामुदायिक संगठन और सामाजिक व्यापार है जो नवागंतुकों और अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनके संपूर्ण सामर्थ्य को हासिल करने में उनकी सहायता करता है। हम शरणार्थियों, आश्रय की मांग करने वाले लोगों और सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध समुदायों (CALD) सहित असुरक्षा का अनुभव करने वाले सभी लोगों के साथ काम करते हैं ताकि क्षमता का निर्माण कर सकें और असमानता को पछाड़ने में उन्हें सक्षम कर सकें।

2014 से, SSI ने Ability Links और IgniteAbility® Small Business Start-ups जैसे कई सामुदायिक आधारित प्रस्तावों के माध्यम से विकलांगता ग्रस्त लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं का समर्थन किया है। हम अपने कर्मचारी और सहभागी विशेषज्ञता तथा स्थानीय समुदायों से उनके संबंधों के माध्यम से पूरे NSW में विकलांगता सेवाएँ प्रदान करने हेतु व्यापक विशेषज्ञता लाते हैं।

मुख्य रूप से द्विभाषी और अंतर-सांस्कृतिक कार्यबल के साथ, जो 90 से भी अधिक भाषाएँ बोलते हैं, हमारी सेवाएँ व्यक्तियों और परिवारों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई हैं ताकि उनकी क्षमताओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके, उनकी प्राथमिकताओं की पहचान की जा सके और उनकी वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

हम सभी विविध समुदायों के साथ काम करते हैं जिनमें एबोरिजनल (जनजातीय) और टोरस स्ट्रीट द्वीपवासी, सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध और LGBTQIA+ पृष्ठभूमियों वाले लोग शामिल हैं।

ssi.org.au